

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण


EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 48] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 1976/फाल्गुन 7, 1897

No. 48] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 1976/PHALGUNA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd February 1976

No. F. 15-30(I)/74-U.1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the name of the following public institution shall be added to the Schedule to the said Act, namely:—

“The Council of Historical Research, New Delhi”.

शिक्षा और 'समाज कल्याण' मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1976

सं० एक० 15-30 (I)/74-यू० 1.—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) खण्ड 8 के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय

सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित सार्वजनिक संस्था का नाम जोड़ दिया जाय :—

“ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।”

No. F. 15-30(II)/74-U.1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Provident Funds Act 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the employees of the Indian Council of Historical Research, New Delhi.

ANIL BORDIA, Jt. Secy.

सं० 15-30 (II)/74-यू० 1.—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के खण्ड 8 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के कर्मचारियों के लिए आरंभ की गई भविष्य निधि पर लागू होंगे।

अनिल बोर्दिया, संयुक्त सचिव।